



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 16) पटना, मंगलवार, 5 जनवरी 2010

सं0 एल0/एच0जी0-104/04-10296
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प

15 दिसम्बर 2009

विषय:-बिहार गृह-रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निशाम सेवा के लिए गठित क्रय समिति हेतु निर्गत संकल्प में आंशिक संशोधन ।

गृह (विशेष) विभाग के संकल्प सं0 06 दिनांक 08 जनवरी 2005 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निशाम सेवा के लिए गठित केन्द्रीय कृत क्रय-समिति में निम्नप्रकार से अल्प संशोधन किया जाता है:-

सदस्य-सचिव उप-महासमादेष्टा बिहार-गृह रक्षा वाहिनी के स्थान पर सदस्य-सचिव उप-महासमादेष्टा/अपर-महासमादेष्टा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी होंगे ।

शेष यथावत् रहेगा ।

आदेश :- (i) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

(ii) यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी हेतु इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मो0 सउद,
सरकार के उप-सचिव ।

सं०-06
गृह (विशेष) विभाग

संकल्प
8 जनवरी 2005

विषय:-बिहार गृह-रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निशाम सेवा के लिए अलग क्रय-समिति का गठन ।

गृह (विशेष) विभाग के संकल्प सं० 1733सी० दिनांक 03 मार्च 1986 द्वारा बिहार गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार पुलिस एवं बिहार सैन्य पुलिस संगठन के लिए केन्द्रीयकृत रूप से गठित क्रय समिति को भेदित करते हुए गृह-रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा के लिए अलग क्रय समिति गठित करने का निर्णय सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिया गया है ।

2. उपरोक्त निर्णय के फलस्वरूप पूर्व में विभागीय संकल्प सं० 1733/सी, दिनांक 31 मार्च 1986 (प्रतिलिपि संलग्न) से गठित केन्द्रीयकृत क्रय-समिति को विखंडित करते हुए बिहार गृह-रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवा के लिए अलग क्रय-समिति का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्य निम्नांकित पदाधिकारी होंगे:-

(1) महासमादेष्टा गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार	—	अध्यक्ष
(2) उप-महासमादेष्टा गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार	—	सदस्य-सचिव
(3) समादेष्टा, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, बिहटा	—	सदस्य
(4) राज्य अग्निशाम पदाधिकारी, बिहार अग्निशाम सेवा	—	सदस्य
(5) उद्योग विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि	—	सदस्य
(6) वित्त विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि	—	सदस्य
(7) निगरानी विभाग के एक मनोनीत प्रतिनिधि	—	सदस्य

3. उपर्युक्त क्रय-समिति, बिहार रक्षा वाहिनी संगठन एवं बिहार अग्निशाम सेवा के निमित्त अपेक्षित सामग्रियों का क्रय बजट उपबंध के अधीन रहते हुए बिहार वित्त (सशोधन) नियमावली, 2002 की अधिसूचना सं० 1730, दिनांक 05 मार्च 2003 एवं सामग्री खरीद अधिमानता नीति 2002 के संकल्प सं० 3514, दिनांक 28 सितम्बर 2002 के प्रावधान एवं अन्य सुसंगत नियमों को दृष्टिपथ में रखते हुए निविदा आमंत्रित कर किया जाएगा ।

4. सामग्रियों का स्पेशिफिकेशन, गुणवत्ता आदि के लिए यदि किसी विशेषज्ञ के परामर्श की आवश्यकता हो तो महासमादेष्टा, गृह-रक्षा वाहिनी, बिहार ऐसे विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार आमंत्रित कर सकते हैं ।

आदेश—(I) आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय ।

(II) यह भी आदेश दिया जाता है कि इन सबों की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में शीघ्र प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
गिरीश शंकर,
गृह सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 16-571+50-डी०टी०पी० ।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>